



फादर एग्नल स्कूल, नोएडा - 2017-18

स्व - अभ्यास पत्रिका कक्षा 3 ()
दिनांक _____

सान्या, सुमित, गगन, मोहन, अजय, मैरी और राधा कक्षा तीन में पढ़ते थे। गगन एक नया बच्चा था जो छः महीने पहले ही कक्षा में आया था। उसे तथा उसके माता-पिता को अपने वातावरण से प्रेम था। वे अपना घर तथा मोहल्ला साफ रखते थे। गगन भी सबको अपने वातावरण को साफ रखने के लिए न केवल कहता था बल्कि अनेक प्रयत्न भी करता था। जैसे - वह अपने मित्रों को उनके जन्मदिन पर उपहार में पौधा देता था। उसने एक बाल सभा बुलाई। बाल सभा में लगभग 25 बच्चे आए। गगन और सलोनी सभा के मुखिया थे। सभा में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुईं जैसे - सभी बच्चों ने प्लास्टिक के थैली की जगह जूट तथा कपड़े के थैलों का प्रयोग करने के लिए कहा क्योंकि प्लास्टिक हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खराब करती है। कागज, फलों के छिलके आदि हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। पाठशाला तथा मोहल्ले में जगह - जगह कूड़ेदान रखवाएंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। ये सभी बातें हमें भी ध्यान रखनी चाहिए तथा इनका पालन करके अपने आसपास के वातावरण को साफ़ तथा स्वच्छ रखना चाहिए।

ऊपर दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर दें -

प्र० 1. शब्दों के अर्थ लिखो।

1. प्रयत्न _____

उपहार _____

प्र० 2. बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे ?

उ० _____

प्र० 3. बाल सभा के मुखिया कौन थे ?

उ० _____

प्र०4. गगन कितने महीने पहले विद्यालय में आया था ?

उ० _____

प्र०5. प्लास्टिक हमारे वातावरण को कैसे नुकसान पहुँचाती है ? कोई एक नुकसान लिखो ।

उ० _____

प्र० 6. अनुच्छेद में आए कोई दो संज्ञा शब्द लिखो ।

1. _____ 2. _____

प्र०. 7. विलोम शब्द लिखो ।

1. नया _____ 2. बाहर _____

प्र०. 8. लिंग बदलो ।

1. माता _____ 2. लड़का _____

प्र०.9 अनुच्छेद में आये कोई दो सर्वनाम शब्द लिखो ।

1. _____

2. _____